

21. हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए
22. लकड़ी से बनाई जा सकने वाली पांच वस्तुओं के नाम लिखिए
23. हस्त चयन विधि कहां उपयोगी है
24. अपने घर अथवा विद्यालय में पाए जाने वाले वृक्ष झाड़ी अथवा विसर्पी लता के दो दो पौधों के नाम लिखिए
25. एक पुष्प का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए  
निबंधात्मक प्रश्न
26. धुराग्र संधि के विषय में लिखिए
27. शाक झाड़ी एवं वृक्ष में अंतर स्पष्ट कीजिए
28. दैनिक जीवन में काम आने वाली 10 अच्छी आदतों को लिखिए
29. नीचे कुछ वस्तुओं तथा पदार्थों के नाम दिए गए हैं-  
(जल, बास्केटबॉल, संतरा, चीनी, ग्लोब, सेब तथा मिट्टी का घड़ा)  
इनको इस प्रकार सामूहित कीजिए-  
(क) गोल आकृति तथा अन्य आकृतियां  
(ख) खाद्य तथा अखाद्य

विषय-विज्ञान

कक्षा-6

पूर्णांक -50

रोल नंबर.....नाम..... दिनांक.....

- नोट:- 1. सभी प्रश्न करने अनिवार्य है  
2. प्रश्न संख्या 1 से 20 तक 1अंक 21 से 25 तक 2 अंक 26 से 29 तक 5 अंक हैं
- वस्तुनिष्ठ प्रश्न
1. हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कौन सा विटामिन बनाता है-  
(अ) विटामिन ए (ब) विटामिन बी  
(स) विटामिन सी (द) विटामिन डी ( )
2. निम्नलिखित में से किस पदार्थ में चमक नहीं पाई जाती है-  
(अ) लोहा (ब) लकड़ी (स) तांबा (द) चांदी ( )

3. गेहूं तथा चावल से पत्थर एवं भूसे को पृथक करने की सर्वोत्तम विधि है -

(अ) हस्त चयन (ब) थ्रेसिंग (स) चालन (द) संघनन ( )

4. हरे एवं कोमल तने वाले पौधे क्या कहलाते हैं

(अ) झाड़ी (ब) शाक (स) वृक्ष (द) विसर्पी लता ( )

5. हमारे शरीर का पूर्णतया घूमने वाला भाग है -

(अ) कलाई (ब) पदांगुली (स) भुजा (द) कोहनी। ( )

6. निम्नलिखित में से रेगिस्तान का जहाज कौन सा जंतु कहलाता है

(अ) बकरी (ब) ऊंट (स) भेड़ (द) गाय ( )

7. 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं-

(अ) 10mm (ब) 100mm  
(स) 1000mm (द) 10000mm ( )

8. प्राचीन काल में दूरी को मापने का मात्रक था-

(अ) मीटर (ब) किलोमीटर  
(स) पैर की लंबाई (द) सेंटीमीटर। ( )

9. पारदर्शी पदार्थ नहीं है -

(अ) कांच (ब) जल (स) वायु (द) धातु ( )

10. गर्दन तथा सिर को कौन सी संधि जोड़ती है-

(अ) हिंज संधि (ब) अचल संधि

(स) कंदूक खलीका संधि (द) दुराग्र संधि ( )

निम्नलिखित कोष्ठक में लिखे शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए

(विलयन, खनिज, निरंतर, 100,5000)

11. किसी पदार्थ को द्रव में घोलने से..... बनता है

12. जड़े मिट्टी से जल एवं..... पदार्थ का अवशोषण करती है

13. हमारे शरीर में स्वत ही अनेक गतियां..... होती रहती है

14. 1 मीटर में..... सेंटीमीटर होते हैं

15. 5 किलोमीटर में..... मीटर होते हैं

कॉलम-1 में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम-2 से कीजिए

कॉलम- 1

कॉलम - 2

16. सरल रेखीय गति (a) घड़ी की सुई

17. वर्तुल गति। (b) मार्च पास्ट

18. आवर्ती गति। (c) लुढ़कती गेंद

19. घूर्णन गति। (d) लोलक

20. ऊंट (e) मरुस्थल

लघु उत्तरात्मक प्रश्न